



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

27 जून 2025

अप्रैल-मार्च 2024-25 के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में परिवर्तन के स्रोत

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर चौथी तिमाही, अर्थात् 2024-25 के जनवरी-मार्च के लिए भुगतान संतुलन (बीओपी) संबंधी आंकड़े जारी किए। इन आंकड़ों के आधार पर, अप्रैल-मार्च 2024-25 के दौरान विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में परिवर्तन के स्रोत तालिका 1 में दिए गए हैं:

तालिका 1: विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में परिवर्तन के स्रोत *				
(बिलियन अमेरिकी डॉलर)				
मर्दे			2023-24	2024-25
I.		चालू खाता शेष	-26.1	-23.4
II.		पूंजी लेखा (निवल राशि) (ए से एफ तक)	89.8	18.3
	ए.	विदेशी निवेश (i+ii)	54.2	4.5
		(i) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)	10.2	1.0
		(ii) पोर्टफोलियो निवेश	44.1	3.6
		जिसमें से:		
		विदेशी संस्थागत निवेश (एफआईआई)	44.6	3.3
		एडीआर/जीडीआर	0.0	0.0
	बी.	बैंकिंग पूंजी	40.5	-9.8
		जिसमें से : एनआरआई जमाराशियां	14.7	16.2
	सी.	अल्पावधिक ऋण	-0.8	7.2
	डी.	बाह्य सहायता	7.5	6.3
	ई.	बाह्य वाणिज्यिक उधार	-0.1	15.8
	एफ.	पूंजी लेखा में शामिल अन्य मर्दे	-11.5	-5.6
III.		मूल्यन परिवर्तन	4.3	26.9
IV.		कुल (I+II+III) @	68.0	21.9
		आरक्षित निधि में वृद्धि (+) / आरक्षित निधि में कमी (-)		

*: बीओपी के पुराने फार्मेट पर आधारित हैं जो चालू खाते और पोर्टफोलियो निवेश के अंतर्गत एडीआर/जीडीआर के अंतरणों के संव्यवहार में नए फार्मेट (बीपीएम6) से भिन्न हो सकते हैं।

@: अंतर, यदि कोई हो, तो पूर्णांकन के कारण है।

नोट: 'पूँजी लेखा में अन्य मदें' के अंतर्गत 'भूल और चूक' के अलावा एसडीआर आबंटन, निर्यात में घट-बढ़, विदेशों में रखी निधियां, एफडीआई के अंतर्गत प्राप्त ऐसे अग्रिम, जिसमें शेयर का निर्गम नहीं किया गया है तथा पूंजीगत प्राप्ति, जिन्हें और कहीं शामिल नहीं किया गया है और रुपया मूल्यवर्गित ऋण शामिल हैं।

भुगतान संतुलन के आधार पर (अर्थात्, मूल्यन प्रभावों को छोड़कर), 2024-25 के दौरान विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में 5.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी आई, जबकि 2023-24 के दौरान इसमें 63.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई थी। 2024-25 के दौरान में विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में सांकेतिक अर्थ में (अर्थात्, मूल्यन प्रभावों सहित) 21.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर वृद्धि हुई, जबकि 2023-24 में इसमें 68.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई थी ([तालिका 2](#))।

तालिका 2: आरक्षित निधियों में परिवर्तन की तुलनात्मक स्थिति			
(बिलियन अमेरिकी डॉलर)			
मदें		2023-24	2024-25
1.	विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में घट-बढ़ (मूल्यन प्रभावों सहित)	68.0	21.9
2.	मूल्यन प्रभाव [अभिलाभ (+)/हानि (-)]	4.3	26.9
3.	बीओपी के आधार पर विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में परिवर्तन (अर्थात् मूल्यन प्रभावों को छोड़कर)	63.7	-5.0
नोट : आरक्षित निधियों में बढ़ोतरी (+)/आरक्षित निधियों में कमी (-) अंतर, यदि कोई हो, तो पूर्णांकन के कारण है।			

मूल्यन अभिलाभ, जो मुख्य रूप से स्वर्ण की उच्च कीमतों और कम बॉण्ड प्रतिफल को दर्शाता है, 2024-25 के दौरान 26.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि 2023-24 के दौरान 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मूल्यन अभिलाभ था।